

साकेत

राम, तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है,
कोई कवि बन जाय, सहज सम्भान्य है।

श्रीमैथिलीशरण गुप्त